



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

15 चैत्र 1945 (श10)  
(सं० पटना 288) पटना, बुधवार, 5 अप्रील 2023

---

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना  
24 मार्च 2023

सं० 3/एच०-01/2023सा०प्र० 5713—भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक-322/AP-LC/2010-CC&BE/720 दिनांक-23.12.2010 में निहित प्रावधान एवं निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-बी1-3-13/2023-974 दिनांक-20.03.2023 द्वारा गया स्नातक एवं गया शिक्षक, सारण स्नातक एवं सारण शिक्षक तथा कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में बिहार विधान परिषद् के शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक/उप निर्वाचन-2023 के लिए, दिनांक-31.03.2023 (शुक्रवार) को मतदान की तिथि निर्धारित किये जाने के संबंध में सूचित किया गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार का पत्रांक-12/7/94-JCA दिनांक-16.05.1994 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ख में निहित प्रावधानों के आलोक में, गया स्नातक एवं गया शिक्षक, सारण स्नातक एवं सारण शिक्षक तथा कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में बिहार विधान परिषद् के द्विवार्षिक निर्वाचन-2023 में, मतदान की तिथि-31.03.2023 (शुक्रवार) को, मताधिकार का प्रयोग करने हेतु संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचकों को, विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति अनुमान्य की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
गुफरान अहमद,  
सरकार के उप-सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 288-571+10-डी0टी0पी0  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>